



Date: 22nd July, 2023

To, The Manager, Listing & Compliance, **BSE Limited** Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 001 To, Listing Department, National Stock Exchange of India Limited, C-1, G-Block, Bandra-Kurla Complex Bandra (E), Mumbai - 400 051

Ref: Scrip Code - 540393

Ref: Scrip Symbol - SMLT

Subject: Newspaper Advertisement - Disclosure under Regulation 30 and

Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure

Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations")

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III Part A Para A and Regulation 47 of SEBI Listing Regulations, we enclose copies of newspaper advertisement published in following newspapers, regarding record date, book closure date and e-voting information for 28th Annual General Meeting of the Company, in compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations and the Secretarial Standards of General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India.

- 1. Financial Express (National Daily newspaper English Edition), on 22nd July, 2023.
- 2. Shram Bindu (Regional Daily newspaper Hindi Edition), on 22nd July, 2023.

The extract of the newspaper advertisement is annexed herewith for reference.

Kindly take the same on your record.

Yours' Faithfully,

For, Sarthak Metals Limited

Pratik Jain **Company Secretary and Compliance Officer**

Head Office:

BBC Colony, G.E. Road, P.O.: Khursipar, Bhilai - 490 011 (C.G.) Contact : +91 91 1101 5041 Landline : +91 788 2296495, 2296499 Telefax :+91 788 2225874 E-mail :info@sarthakmetals.com

Works:

17 - N, Heavy Industrial Area, hathkhoj, Bhilai - 490 026 (C.G.) Contact: +91 91 1101 5042 Web: www.sarthakmetals.com



CONSOLIDATED

(Rs. in Lakhs)

FINANCIAL EXPRESS

Paid-up equity share capital

A. Basic

B. Diluted

Date: July 22, 2023

Place: Hyderabad

(Face value of Rs. 1/- each per share)

sheet of the previous accounting year

Reserve excluding Revaluation Reserve as per balance

Earnings Per Share (Before and After extraordinary items)

GACM TECHNOLOGIES LIMITED

(Formerly known as Stampede Capital Limited) REGISTERED OFFICE: KURA Towers, 10th Floor, D. No. 1-11-254 & 1-11-255 S.P. Road, Begumpet, Hyderabad-500016, Telangana, India.

CIN: L67120TG1995PLC020170 WEBSITE: https://www.stampedecap.com/ EMAIL ID: cs@stampedecap.com, CONTACT: 040-69086900/84

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR QUARTER ENDED JUNE 30, 2023,

ON STANDALONE AND CONSOLIDATED BASIS

STANDALONE

			STAIND	ALONE			CONSOL	IDATED	
SI.	Particulars	C	uarter Ende	d	Year Ended	G	uarter Ende	ed	Year Ended
No.		30.06.2023	31.03.2023	30.06.2022	31.03.2023	30.06.2023	31.03.2023	30.06.2022	31.03.2023
		(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)
1.	Total Revenue from operations	181.17	342.25	113.87	963.82	187.67	362.05	113.87	1044.40
2.	Total expenses	158.45	323.85	256.06	1,085.45	164.14	335.10	266.70	1,160.71
3.	Profit / (Loss) from operations before exceptional, extra-ordinary items and tax	22.72	18.40	(142.19)	(121.63)	23.53	26.95	(152.83)	(116.31)
4.	Exceptional item	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Extraordinary items	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Profit / (Loss) from ordinary activities after exceptional								
1 1	and extra-ordinary items but before tax	22.72	18.40	(142.19)	(121.63)	23.53	26.95	(152.83)	(116.31)
7.	Tax expense	-	-	-	-	0.40	1.38	-	1.38
8.	Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax	22.72	18.40	(142.19)	(121.63)	23.13	25.57	(152.83)	(117.69)
9.	Other Comprehensive Income	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Total Other comprehensive income	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Total comprehensive income	22.72	18.40	(142.19)	(121.63)	23.13	25.57	(152.83)	(117.69)

seindia.com and www.l The above financial results for the Quarter ended June 30, 2023 are available on the stock exch Company's website www.stampedecap.com

2870.60

0.00641

0.00642

2862.64

-0.050

-0.050

2870.60

(3,540.04)

-0.04237

-0.04244

3993.96

0.0058

0.0058

3993.96

0.0057

0.0057

For and on behalf of GACM Technologies Limited (Formerly known as Stampede Capital Limited)

2870.60

0.0089

0.0089

2862.64

-0.053

-0.053

2870.60

(3,531.99)

-0.0410

-0.0411

Abhishek Jain Company Secretary and Compliance Officer

M. No.: A62027



FIEM INDUSTRIES LIMITED Regd. Office: D-5, Mansarover Garden, New Delhi-110015 (INDIA)

Tel: +91-11-25101002/03/04/05 E-Mail: investor@fiemindustries.com Website: www.fiemindustries.com CIN: L36999DL1989PLC034928 PUBLIC NOTICE FOR ISSUE OF DUPLICATE SHARES

Members of general public and existing shareholders of the Company are hereby informed that

following original share certificates have been reported lost/misplaced and the registered holders thereof/claimants thereto have requested the Company for issuance of duplicate shares in dematerialized form in lieu of lost share certificates(s)

Folio No.	Name of Shareholder	Certificate No.	Distinctive No. [From – To]	No. of Shares
0000133	SL Corporation	391	11858175 - 11884190	26016
0000133	SL Corporation	392	11884191 - 11962225	78035
			Total	104051

Any person(s) who has/have any claim(s) in respect of the aforesaid shares should lodge the claim in writing with us at the above address within 15 days from the publication hereof. Thereafter, the Company will not be liable to entertain any claim in respect of the said shares and shall proceed to issue the duplicate share. in dematerialized from as per the applicable legal For Fiem Industries Ltd.

Date: 22.07.2023 Arvind K. Chauhan Company Secretary Place : Rai, Haryana

SARTHAK METALS LIMITED Corporate Identity Number: L51102CT1995PLC009772

Registered Office: B.B.C Colony, G. E. Road, Khursipar, Bhilai - 490011, Chhatisgarh, India Website: www.sarthakmetals.com E-mail: cs@sarthakmetals.com

Contact No. +91-9303773708 NOTICE OF THE 28TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING,

RECORD DATE AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 28th Annual General Meeting ('AGM') of the Company will be held on Monday, August 21, 2023 at 12:00 pm (IST) at the Hotel Ashish International, G.E. Road, Bhilai Powerhouse, Chhattisgarh - 490011 to transact the business, as set out in the Notice of the AGM which is being circulated for convening the AGM.

In accordance with Circular Numbers SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 12, 2020, January 15, 2021, May 13, 2022 and 28th December, 2022 respectively issued by Securities Exchange Board of India (collectively referred to as "SEBI Circulars"), the Company on July 21, 2023 has sent the Notice of the AGM along with the Annual Report 2022-23 by electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/Depositories. Physical copies of the Notice of the AGM along with the Annual Report 2022-23 is also being sent voluntarily to those members whose e-mail addresses are not registered. Annual Report 2022-23 is also available on the website of the Company at www.sarthakmetals.com, BSE Limited at www.bseindia.com, National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and

https://ivote.bigshareonline.com. REMOTE E-VOTING

In compliance with the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Members are provided with the facility to cast their vote electronically on all resolutions set-forth in the Notice of AGM during the remote e-voting period through the electronic voting platform provided by Bigshare Services Private Limited.

Members have the option to cast their vote using the remote e-voting facility prior to AGM or during the AGM through ballot paper. Detailed procedure for remote e-voting is provided in the Notice of the AGM.

Members may cast their votes remotely on the dates mentioned herein below (remote evoting). The Company has engaged the services of Bigshare Services Private Limited as the agency to provide e-voting facility.

The remote e-voting facility will be available during the following voting period: Commencement of e-Voting From 9.00 a.m. (IST) on Friday, August 18, 2023

Upto 5.00 p.m. (IST) on Sunday, August 20, 2023 End of e-Voting

The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the remote e-voting module shall be forthwith disabled by Bigshare Services Private Limited

upon expiry of the said period. Members attending the AGM who have not cast votes by remote e-voting will be able to

vote through ballot paper at the AGM. A person whose names is recorded in the Register of Members as on the Cut-off date, that is, Monday, August 14, 2023 only shall be entitled to avail the facility of

remote e-voting or for voting through ballot paper at the AGM. The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on Cut-off date.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the Notice has been sent electronically by the Company, and holds shares on the cutoff date; may obtain the login ID and password by sending a request to

BOOK CLOSURE AND PAYMENT OF DIVIDEND

The Register of Members and the Share Transfer Books will remain closed from Thursday, August 10, 2023 - Monday, August 21, 2023 (both the days inclusive) pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act.

The final dividend of Re. 1/- (Rupee One) per equity share of Rs 10/- each, as recommended by the Board of Directors of the Company for the Financial Year ended March 31, 2023 at their meeting held on May 26, 2023, if approved by the Members at their ensuing 28th AGM will be paid to the eligible Members on or after August 26, 2023. The Company has fixed Wednesday, August 09, 2023, as the 'Record Date' for determining entitlement of members to final dividend for FY 2022-23, if approved at the AGM. In the event the Company is unable to pay the dividend to any shareholder by electronic mode, due to nonregistration of the bank account, the Company will dispatch the dividend warrant/demand draft/cheque to such shareholder, in due course.

In view of this:

Members holding shares in the demat mode are requested to update their Bank accounts details with their respective Depository Participants (DPs); and

Members holding shares in the physical form are requested to submit the name and bank account details of the first shareholder along with a cancelled cheque leaf with your name and bank account details and a duly self-attested copy of your PAN card, with the Bigshare Services Private Limited, Registrar and Transfer Agent ('RTA') of the Company. In case the cancelled cheque leaf does not bear your name, please attach a copy of the bank pass-book statement, duly self-attested.

REGISTRATION OF E-MAIL ADDRESSES

Members who have not yet registered their e-mail addresses are requested to register their email addresses. Members holding shares in demat form are requested to update the same with their Depository Participant and to RTA for Members holding shares in physical form. In case shareholders/ investor have any gueries regarding E-voting, you may refer the

Frequently Asked Questions ('FAQs') and i-Vote e-Voting module available at https://ivote.bigshareonline.com, under download section or you can email us to ivote@bigshareonline.com or call us at: 1800 22 54 22.

Members are requested to carefully read all the notes set out in the Notice of the 28th AGM and instructions for manner of casting vote through remote e-voting.

For Sarthak Metals Limited Place: Bhilai, Chhattisgarh Pratik Jain Date: 21st July, 2023 Company Secretary



financialexpress.com

CIN: L74140MH2008PLC177884 Regd. Office: 360 ONE Centre, Kamala City, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400013.

360 ONE WAM LIMITED (Formerly known as IIFL Wealth Management Limited)

Tel: (91-22) 4876 5600 | Fax: (91-22) 4646 4706

Email id: secretarial@360.one | Website: www.360.one Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2023

		Quarter ended		
Particulars	June 30, 2023 Unaudited	March 31, 2023 Unaudited	June 30, 2022 Unaudited	March 31, 2023 Audited
Total Income from Operations	558.96	479.91	4/1.12	1,974.66
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	223.87	200.08	201.44	850.29
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	223.87	200.08	201.44	850.29
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) attributable to owners of the Company	183.76	155.45	156.58	657.93
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] attributable to owners of the Company	181.45	155.14	159.94	667.86
Paid up Equity Share Capital	35.70	35.61	17.75	35.61
Other equity (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year (including Securities Premium Account)	-	-	-	3,086.34
Networth (as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year)	-	-	-	3126.44
Earnings Per Share (Face Value of ₹1/- each) (for continuing and discontinued operations)				
Basic (in ₹)	5.15	4.37	4.41	18.51
Diluted (in ₹)	5.05	4.26	4.35	18.12

Place: Mumbai

Date: July 21, 2023

1. The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board at its meeting held on July 20, 2023.

- 2. The above is an extract of the detailed format of guarter ended financial results filed with the stock exchanges under Regulation 33 and 52 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarter ended financial results are available on the stock exchange websites viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the Company's website at www.360.one
- 3. The disclosures mentioned in Regulation 52(4) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, have been made to stock exchanges
- and is available on www.bseindia.com and on the Company's website at www.360.one. 4. The Key data relating to standalone financial results of 360 ONE WAM LIMITED:

₹ in Crore

		Quarter ended		
Particulars	June 30, 2023	March 31, 2023	June 30, 2022	March 31, 2023
	Unaudited	Unaudited	Unaudited & Restated	Audited
Total Income from operations	23.16	10.15	14.82	111.97
Net Profit/(Loss) Before Tax	115.99	103.76	31.78	515.67
Net Profit/(Loss) After Tax	115.77	94.41	31.53	495.85
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	115.70	94.12	31.70	495.79
Outstanding Debt	648.28	1,230.52	867.50	1,230.52
Debt Equity Ratio (number of times)	0.28	0.52	0.38	0.52
Capital Redemption Reserve	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Debenture Redemption Reserve	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Debt service coverage ratio (annualised- number of times)	0.84	0.40	0.20	0.45
Interest service coverage ratio (number of times)	7.56	6.94	3.75	9.65

5. The figures for the guarter ended March 31, 2023, are the balancing figures between audited figures in respect of the year ended March 31, 2023 and the unaudited figures of the nine months ended December 31, 2022.

6. Previous period/year figures have been regrouped/reclassified to make them comparable with those of current period/year

By order of the Board For 360 ONE WAM LIMITED

(₹ in Millions, unless otherwise stated)

(Formerly known as IIFL Wealth Management Limited) **Karan Bhagat**

Managing Director DIN: 03247753

HMT LIMITED What

HMT Bhavan, No. 59, Bellary Road, Bangalore 560 032. CIN:L29230KA1953GOI000748

EXTRACT OF THE AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH 2023

		Thre	e months e	nded	Year E	nded
SI.No.	Particulars	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
		Audited*	Unaudited	Audited	Audited*	Audited
1	Total income from Continuing Operations	3210	2850	3557	9997	8175
2	Net profit/ (loss) for the period (before tax, exceptional items)	(1107)	1273	2236	1491	3835
3	Net profit/ (loss) for the period before tax (after exceptional items)	(1107)	1273	2236	1491	3835
4	Net profit/ (loss) for the period after tax (after exceptional items)	(1892)	1273	2237	706	3836
5	Net Profit/(Loss) from Discontinued Operations	1(0)	80	100	80	(0)
6	Total Comprehensive Income for the period (comprising profit for the period and other comprehensive income (net of tax))	(1941)	1296	2455	727	3953
7	Paid up Equity Share Capital (face value of Rs.10/- each)	35560	35560	35560	35560	35560
8	Other Equity	223	27	120	7833	7106
9	Earnings Per Share from continuing operations (face value of Rs. 10/- each)	0.00000	5,000,00	5.40%	500000000000000000000000000000000000000	
	Basic :	(0.53)	0.36	0.63	0.20	1.08
	Diluted : Earnings Per Share from discontinued operations (face value of Rs. 10/- each)	(0.53)	0.36	0.63	0.20	1.08
	Basic :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Diluted :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EXTRACT OF THE CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR

		Thre	e months e	Year	Ended	
SI. No.	Particulars	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
		Audited*	Unaudited	Audited	Audited*	Audited
1	Total income from Continuing Operations	12957	5258	9839	25845	22246
2	Net profit/ (loss) for the period	(2670)	(2106)	(4188)	(11763)	(14504)
100	(before tax, exceptional items)	100-010045		Visitizacii.	20000000	
3	Net profit/ (loss) for the period before tax	(2587)	(2106)	(4188)	(11680)	(14504)
100	(after exceptional items)	C0.30 P 903		27.500-448.600	Later Model	
4	Net profit/ (loss) for the period after tax	(3382)	(2106)	(4194)	(12475)	(14510)
	(after exceptional items)					
5	Net Profit/(Loss) from Discontinued Operations	26	116	67757	185	67780
6	Total Comprehensive Income for the period	(3463)	(1958)	63789	(12298)	53409
	(comprising profit for the period					
	and other comprehensive income (net of tax))					
7	Profit/(Loss) for the year attributable to :					
	Equity holder of the parent	(3356)	(1990)	63512	(12290)	53219
	Non-Controlling Interest	- 65	10	51	(2)	51
8	Other Comprehensive Income attributable to:					
	Equity holder of the parent	(107)	32	226	(8)	139
	Non-Controlling Interest	579	¥37			- 12
9	Total Other Comprehensive income for the year					
	attributable to :			100000000000000000000000000000000000000		
	Equity holder of the parent	(3463)	(1958)	63738	(12298)	53358
	Non-Controlling Interest		<u> </u>	51	•	51
10	Paid up Equity Share Capital	35560	35560	35560	35560	35560
1000	(face value of Rs. 10/- each)	N-CONTINUES.		Severiences	A Control of Control	
11	Other Equity	315	56		(465874)	(453576)
12	Earnings Per Share from continuing operations	1,07				
	(face value of Rs.10)- each)					
	Basic:	(0.95)	(0.59)	(1.18)	(3.51)	(4.08)
	Diluted :	(0.95)	(0.59)	(1.18)	(3.51)	(4.08)
	Earnings Per Share from discontinued operations					
	(face value of Rs. 10/- each)					

Note: 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and Yearly Financial Results are available on the websites of Stock Exchange of www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's website www.hmtindia.com

0.01

0.01

0.03

0.03

2. Figures of previous year have been regrouped wherever necessary. * Subject to C & AG review

Place: Bangalore Date: July 20, 2023

Basic:

Diluted:

(Pankaj Gupta) Chairman and Managing Director

By order of the Board of Directors

0.05

0.05

19.05

19.05

19.05

19.05

glenmark LIFE SCIENCES

Glenmark Life Sciences Limited Registered Office: Plot No. 170-172, Chandramouli Industrial Estate, Mohol Bazarpeth, Solapur-413 213, India.

Corporate Office: 4th Floor, OIA House, 470, Cardinal Gracious Road, Andheri (E), Mumbai-400 099, India. Phone No.: +91 22 68297979; CIN: L74900PN2011PLC139963; Website: www.glenmarklifesciences.com; Email: complianceofficer@glenmarklifesciences.com

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30th JUNE, 2023

Sr.			Quarter Ended			
No.	Particulars	30 Jun'23 (Unaudited)	31 Mar'23 (Refer Note 6)	30 Jun'22 (Unaudited)	31 Mar'23 (Audited)	
1	Income			VAC 2-0-0		
	Revenue from Operations	5,784.50	6,213.20	4,898.70	21,612.20	
	Other Income	18.51	28.36	94.93	289.57	
anate	Total Income	5,803.01	6,241.56	4,993.63	21,901.77	
11	Expenses	000000000000000000000000000000000000000	40000000000000000000000000000000000000			
	Cost of Materials Consumed	2,982.13	2,997.43	2,612.50	10,985.25	
	Changes in Inventories of Finished	60 00	8 0		97 95	
	Goods and Work-in-Progress	(501.74)	(193.65)	(323.50)	(844.37)	
	Employee Benefits Expense	481.32	438.14	404.56	1,801.80	
	Finance Costs	3.96	1.19	1.35	5.47	
	Depreciation and Amortisation Expense	126.12	115.17	98.79	420.94	
	Other Expenses	891.18	906.98	737.46	3,246.59	
	Total Expenses	3,982.97	4,265.26	3,531.16	15,615.68	
Ш	Profit Before Tax (I-II)	1,820.04	1,976.30	1,462.47	6,286.09	
IV	Tax Expenses					
	Current Tax	435.99	473.11	362.29	1,506.11	
	Deferred Tax	29.55	39.62	12.85	110.37	
	Total Tax Expenses	465.54	512.73	375.14	1,616.48	
٧	Profit for the Period / Year (III-IV)	1,354.50	1,463.57	1,087.33	4,669.61	
VI	Other Comprehensive Income (OCI) Items that will not be reclassified to profit or loss		.,,			
	(a) Re-measurement of the	(0.07)	5.00	0.39	(0.00)	
	post-employment benefit obligation	(0.97)	5-237000000		(3.88)	
	(b) Income tax relating to the above	0.24	(1.25)	(0.10)	0.98	
	Total Other Comprehensive Income / (Loss)	(0.73)	3.75	0.29	(2.90)	
VII	Total Comprehensive Income for the Period / Year (V+VI)	1,353.77	1,467.32	1,087.62	4,666.71	
VIII	Earnings per equity share (Face Value of ₹ 2/- each) (Not Annualised except for the year ended 31st March)					

Revaluation Reserve See accompanying notes to the Financial Results

(a) Basic (in ₹)

(b) Diluted (in ₹)

X Other Equity excluding

IX | Paid up Equity Share Capital, Equity Shares of ₹ 2/- each

the relevant financial year.

Mumbai, July 21, 2023

1. The Financial Results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ("Ind AS") prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules thereunder and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended).

11.05

11.05

245.05

11.94

11.94

245.05

8.87

8.87

245.05

38.11

38.11

245.05

21,137.02

2. The above Financial Results were reviewed by Audit Committee at their meeting held on July 21, 2023 and thereafter approved and taken on record by the Board of Directors at their meeting held on July 21, 2023. These results have been subjected to limited review by statutory auditor who have expressed an unmodified opinion on the said results.

3. Details of Utilisation of IPO Proceeds is as under:

Particulars	Estimated net proceeds as per Prospectus	Revised Net Proceeds	Utilised up to 30 Jun'23	Unutilised as on 30 Jun'23
Payment of outstanding purchase consideration to the Promoter for the spin-off of the API business from the Promoter into our Company pursuant to the Business Purchase Agreement dated October 9, 2018	8,000.00	8,000.00	8,000.00	198
Funding the capital expenditure requirements	1,527.64	1,527.64	1,194.62	333.02
General corporate purposes	576.75	494.40	494.40	
Total	10,104.39	10,022.04	9,689.02	333.02

The Company has identified only one segment i.e. Active Pharmaceutical Ingredient (API) as reporting segment based on the information reviewed by Chief Operating Decision Maker (CODM).

As at June 30, 2023, pursuant to Employee Stock Option Plan 2021, 8,77,712 options were outstanding, which upon exercise are convertible into equivalent number of equity shares.

6. The figures for the quarter ended 31st March are the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year and the unaudited year to date figures upto the third quarter of

> For Glenmark Life Sciences Limited Yasir Rawjee

Managing Director & CEO

financialexp.epapr.in

7 in Crore

[खास खबर]

आदिवासी महिला की संदेहास्पद मौत, मिलने पहुंचे जनप्रतिनिधि



संदिग्ध हालत में मृत आदिवासी युवती के परिजनों से जनपद सदस्य निलय कश्यप ने की मुलाकात

श्रमबिन्दु / भानपुरी

इस तहसील के ग्राम बाकेल में एक आदिवासी युवती का संदेहास्पद परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। मामले की जांच भानपुरी पुलिस कर रही है। यह मामला सामने आने के बाद कांग्रेस के युवा नेता एवं जनपद सदस्य जनपद निलय कश्यप ने बाकेल के मारीगुड़ा गांव पहुंचकर मृतका के परिजनों से मुलाकात की। निलय कश्यप ने इस दुख की इस घड़ी में परिवार को हरसंभव मदद करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि वे परिवार को न्याय दिलाने कटिबद्ध हैं। निलय कश्यप ने शोकाकुल परिवार से ढांढस बंधाते हुए कहा कि क्षेत्र के विधायक चंदन कश्यप और हम सभी आप लोगों के साथ हैं। हम आप लोगों की हर संभव मदद करेंगे। विधायक ने पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों से बात करके गंभीरता से मामले की जांच करने की निर्देश दिए हैं। पुलिस जांच कर रहीं है। दोषियों पर कठोर कार्रवाई होगी। इस दौरान युवा कांग्रेस के भानपुरी ब्लॉक अध्यक्ष अनिल बघेल, कांग्रेस कार्यकर्ता जागेश्वर सिन्हा, विधायक के सोशल मीडिया प्रतिनिधि भुवनेश्वर बघेल एवं अन्य लोग उपस्थित थे।

अनुपूरक बजट से नगरीय निकायों में कार्यरत प्लेसमेंट कर्मचारी हुए निराश



श्रमबिन्दु / नारायणपुर

कांग्रेस सरकार ने अपने अंतिम पूरक बजट में आउट सोर्सिंग/ प्लेसमेंट प्रथा बंद नहीं किये जाने व नियमितिकरण के वादे पूर्ण नहीं कर सिर्फरू. 4000 अकुशल/ अर्द्धकुशल/कुशल/ उच्च कुशल श्रमिकों के वेतन वृद्धि की है जिससे नगरीय निकायों में कार्यरत 25000 हजार प्लेसमेंट कर्मचारी पुन: निराश हुए है। नगरीय निकाय प्लेसमेंट कर्मी को कांग्रेस सरकार से पूरी उम्मीद थी कि वे नगरीय निकायों से ठेका प्रथा बंद कर, एक नियत अवधि निर्धारित कर कर्मचारियों का नियमितिकरण करेगें। नगरीय निकायों मे कार्यरत कर्मचारी ऐसे कर्मचारी है जो कि शासन-प्रशासन के महत्वाकांक्षी योजनाओं और अतिआवश्यक सेवाओं, सप्पई, जल व्यवस्था, विद्युत, राशन कार्ड बनाना, पेंशन कार्य, जन्म से लेकर मृत्यु तक के प्रमाण पत्र बनाने संबंधी लोक सेवा गारंटी अंतर्गत आने वाली सेवाओं सहित विधानसभा, लोकसभा व नगरीय निकाय निवार्चन से संबंधित समस्त व्यवस्था में विगत कई वर्षो से प्लेसमेंट कर्मी सेवाऍ दे रहे है। कोविड महामारी के नियत्रंण व रोकथाम में निकाय के ही प्लेसमेंट कर्मी द्वारा पुरे कोरोना काल में अपनी सेवाएँ दी है। प्लेसमेंट कर्मी द्वारा उपरोक्त सेवाएँ देने के बावजूद वर्तमान सरकार ने हमारी मांगो को गंभीरता से नही लिया और आज तक हमारी मांगों के संबंध में महासंघ से संवाद भी स्थापित नहीं कर पाई है। कांग्रेस सरकार के इस वादा खिलाफी से समस्त नगरीय निकायों में कार्यरत प्लेसमेंट कर्मचारी भारी आक्रोशित है। छ.ग. नगरीय निकाय प्लेसमेंट कर्मचारी महासंघ का अपनी प्रमुख मांग नगरीय निकायों से ठेका प्रथा बंद कर, निकायों में समायोजन करते हुए नियत अवधि में नियमितिकरण किये जाने को लेकर आगे भी संघर्ष जारी रखेगा।

कुलपति एवं संभागायुक्त कावरे ने पशु चिकित्सा एवं पशु पालन महाविद्यालय अंजोरा का किया औचक निरीक्षण



श्रमबिन्दु / खैरागढ़

प्रात: 10.00 बजे पशु चिकित्सा एवं पशु पालन महाविद्यालय अंजोरा में संभागायुक्त एवं कुलपित श्री महादेव कावरे ने अचानक दिबश दी। निरीक्षण के दौरान कार्यालयीन समय पर अनुपस्थित पाए गए 03 कर्मचारियों को कारण बताओं नोटिस जारी किये जाने हेतु अधिष्ठाता डॉ. एस.के. तिवारी को निर्देशित किया साथ ही उपस्थित अधिकारियों/अध्यापको को सख्त निर्देश दिए की कार्यालयीन समय पर अपने कार्य पर उपस्थित रहे उन्होंने कहां कि कार्य में लापरवाही बरतने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सर्वप्रथम आहार एवं चारा प्रयोगशाला का निरीक्षण किया जहां डॉ. फस्ति ने बताया कि प्रयोगशाला में पशुओं के आहार के लिए विभिन्न जिलों से प्राप्त नमूनों की जांच की जाती है। जिनमें इथर एक्स्ट्रेक्शन एसेंबली की प्रक्रिया के संबंध में डॉ. एस.के. तिवारी अधिष्ठाता द्वारा अवगत कराया गया। कुलपति ने नमूने संग्रहण एवं जांच से संबंधित पंजी संधारण के भी निर्देश दिए।

मणिपुर से छग की तुलना राज्य के लोगों का अपमान : दीपक बैज

श्रमबिन्दु / रायपुर - जगदलपुर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मणिपूर के हालात से छत्तीसगढ़ की तुलना की जाने पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर से छत्तीसगढ़ की तुलना कर छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि मणिपुर जातीय और वर्ग संघर्ष की आग में जल रहा है। वहां हिंसक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं किंद्र सरकार और मणिपुर की भाजपा सरकार वहां के हालात को सुधारने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई हैं।

दीपक बैज ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में शांति और खुशहाली की स्थिति है।यहां सभी धर्म, जाति और संप्रदायों के लोग आपसी भाईचारे के साथ एक दूसरे का सम्मान करते हुये शांतिपूर्ण ढंग से निवासरत हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी के बयान से उनकी बौखलाहट झलक रही है मणिपुर



संभल नहीं रहा तो देश के शांतिपूर्ण राज्यों से उसकी तुलना कर प्रधानमंत्री अपनी खीझ निकाल रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री मतिभ्रम के शिकार हो गए हैं। उन्हें लग रहा है कि छत्तीसगढ में अभी भी रमन सिंह के कुशासन का राज है। वे भूल गए हैं कि छत्तीसगढ़ में रमन सरकार के कुशासन का दौर समाप्त हो गया है, जब छत्तीसगढ़ में मीना खलखो, झलियामारी, हिड्मा मड्कम जैसे कांड होते थे। भाजपा के पंद्रह साल के शासनकाल में छत्तीसगढ़ महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित हो गया था।

भाजपा राज में प्रदेश में हर दिन एक बलात्कार की घटना और हर दूसरे दिन एक महिला सामूहिक दुराचार की घृणित घटना का शिकार होती थी। राज्य के कुछ जिले तो मानव तस्करी विशेषकर महिलाओं के लापता होने की चिंताजनक घटनाओं का केंद्र बन चुके थे। प्रदेश के माथे पर झलियामारी जैसा कलंक भाजपा के राज में ही लगा था। आमाडोला और बीजापुर जैसी हृदय विदारक घटनाएं रमन राज में ही हुई थीं । मीना खलको, हिडमा मड़कम जैसी घटनाओं की जवाबदेह भाजपा सरकार ही थी। जिस भाजपा के राज में महिला पुलिस आरक्षक

हो जाता था, उस भाजपा के नेता प्रधानमंत्री किस मुंह से आज कानून व्यवस्था व महिला सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं? दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था देश के भाजपा शासित राज्यों की अपेक्षा बेहतर है। श्री मोदी की भाजपा शासित यूपी, महाराष्ट्र, हरियाणा जैसे राज्य अपराधों में देश की शीर्ष पर हैं। एनसीआरबी के आंकड़े राज्य में अपराध नियंत्रण की गवाही दे रहे हैं। वर्तमान में भूपेश बघेल सरकार की ठोस पहल से हत्या, लूट, डकैती जैसे गंभीर अपराधों में लगातार गिरावट आ रही है। बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध में 47 प्रतिशत और महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में 58 प्रतिशत की कमी आई है। नक्सल घटनाओं में 80 प्रतिशत और नक्सल हमलों में शहादत में 76 प्रतिशत की कमी एक बड़ी उपलब्धि है। श्री बैज ने कहा कि प्रधानमंत्री अनर्गल बयानबाजी कर छत्तीसगढ और छत्तीसगढ़ियों को बदनाम करने नित नई साजिश

युवा कांग्रेस मीडिया के प्रदेश संयोजक हर्ष श्रवला ने की पीसीसी अध्यक्ष से मुलाकात

श्रमबिन्दु / नई दिल्ली / रायपुर

छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस मीडिया के प्रदेश संयोजक हर्ष शुक्ला एवं दुर्ग शहर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के शेख साबिर ने अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं सांसद बस्तर दीपक बैज से उनके दिल्ली निवास पर मुलाकात कर उन्हें छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर बधाई दी। युवा कांग्रेस मीडिया के प्रदेश संयोजक हर्ष शुक्ला ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद दीपक बैज से भेंट के दौरान युवा कांग्रेस मीडिया विभाग की गतिविधियों की जानकारी देते हुए उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि अधिकाधिक युवाओं को कांग्रेस की रचनात्मक गतिविधियों से जोडा जाना चाहिए। आज देश और

क्मांक / 542 / लो०क ० वि० / 2023

निविदा प्रपत्र जारी करने की अंतिम तिथि

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि

टायलेट निर्माण।

निविदा खोलने की तिथि

उल्लेखित निर्माण कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है :--

निविदा प्रपत्र क्य करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि

कार्य स्थल/कार्य का नाम

शारदा टाकीज के सामने,इंदिरा मार्केट में पिंक

नगर निगम मुख्य कार्यालय में पिंक टायलेट

अग्रसेन चौक गांधी मार्केट में पिंक टायलेट



।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग।।

एसाओा अारा 01.01.2015 के आधार पर तथा निविदा दिनांक से संशोधित दर पर कम/अधिक प्रतिशत दर पर नीचे

-: मैनुअल निविदा आमंत्रण सूचना :--

लागत

(रू.लाख

में)

8.00

8.00

8.00

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से लो.नि.वि.में प्रचलित भवन/सङ्क

छत्तीसगढ़ प्रदेश का युवा कांग्रेस की ओर देख रहा है। कांग्रेस ही युवाओं को आगे बढ़ाती है। हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी देश को जोड़ रहे हैं। युवाओं को प्रेरणा दे रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल्लकार्जुन खड़गे युवा नेतृत्व को प्रोत्साहित कर रहे हैं। कांग्रेस युवाओं को 50 फीसदी पद युवा पीढ़ी को दे रही है। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल युवाओं की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। सभी युवाओं का भविष्य कांग्रेस के हाथ में सुरक्षित है।

युवा कांग्रेस मीडिया के प्रदेश संयोजक हर्ष शुक्ला ने मार्गदर्शन के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि युवा कांग्रेस मीडिया विभाग उनके मार्गदर्शन में प्रदेश के युवाओं को कांग्रेस की नीतियों और कार्यक्रम से जोड़ने

दुर्ग, दिनांक -21.07.2023

(सायं 4.00 बजे)

03 माह

०३ माह

०३ माह

ठेकेदार

की श्रेणी

"द" एवं

उपर

"द" एवं

Phone:- 0788-2322148

28.07.2023

04.08,2023

11.08.2023

14.08.2023

निविदा

प्रपत्र

की

कीमत

750/-

750/-

750/-

अमानत

राशि

6000/-

6000/-

6000/-

निविदा

प्रपत्र का

चाकू के साथ युवक गिरफ्तार

रायपुर। कोतवाली पुलिस ने चाकू लहराते एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली कि नेहरू नगर चांदनी चौक के पास एक युवक चाकू लेकर आम लोगों को डरा धमका रहा है। सूचना पर मौके में पहुंची पुलिस ने आरोपी मोहम्मद नदीम खान 28 वर्ष को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से चाकू जब्त किया है।

SARTHAK METALS LIMITED

Corporate Identity Number: L51102CT1995PLC009772 Registered Office: B.B.C Colony, G. E. Road, Khursipar, Bhilai - 490011, Chhatisgarh, India

Website: www.sarthakmetals.com E-mail: cs@sarthakmetals.com
Contact No. +91-9303773708

NOTICE OF THE 28TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING,
RECORD DATE AND BOOK CLOSURE

will be held on Monday, August 21, 2023 at 12:00 pm (IST) at the Hotel Ashish In accordance with Circular Numbers SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79,

SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 12, 2020, January 15, 2021, May 13, 2022 and 28th December, 2022 respectively issued by Securities Exchange Board of India (collectively referred to as "SEBI Circulars") registered with the Company/Depositories. Physical copies of the Notice of the AGM along with the Annual Report 2022-23 is also being sent voluntarily to those member: whose e-mail addresses are not registered. Annual Report 2022-23 is also available on the website of the Company at www.sarthakmetals.com, BSE Limited at www.bseindia.com, National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and

upon expiry of the said period.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Members are provided with the facility to cast their vote electronically on all resolutions set-forth in the Notice of AGM during the remote e-voting period through the electronic voting platform provided by Bigshare Services Private Limited.

or during the AGM through ballot paper. Detailed procedure for remote e-voting is provided

Members may cast their votes remotely on the dates mentioned herein below (remote e voting). The Company has engaged the services of Bigshare Services Private Limited as

the agency to provide e-voting facility. The remote e-voting facility will be available during the following voting period:

Commencement of e-Voting From 9.00 a.m. (IST) on Friday, August 18, 2023

Upto 5.00 p.m. (IST) on Sunday, August 20, 2023 The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the remote e-voting module shall be forthwith disabled by Bigshare Services Private Limited

Members attending the AGM who have not cast votes by remote e-voting will be able to ote through ballot paper at the AGM.

A person whose names is recorded in the Register of Members as on the Cut-off date, that is, Monday, August 14, 2023 only shall be entitled to avail the facility of

remote e-voting or for voting through ballot paper at the AGM. The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on Cut -off date.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the Notice has been sent electronically by the Company, and holds shares on the cutoff date; may obtain the login ID and password by sending a request to

BOOK CLOSURE AND PAYMENT OF DIVIDEND

The Register of Members and the Share Transfer Books will remain closed from Thursday, August 10, 2023 · Monday, August 21, 2023 (both the days inclusive) pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act.

The final dividend of Re. 1/- (Rupee One) per equity share of Rs 10/- each, as recomme by the Board of Directors of the Company for the Financial Year ended March 31, 2023 at their meeting held on May 26, 2023, if approved by the Members at their ensuing 28th AGM will be paid to the eligible Members on or after August 26, 2023. The Company has fixed Wednesday, August 09, 2023, as the 'Record Date' for determining entitlement of members to final dividend for FY 2022-23, if approved at the AGM. In the event the Company is unable to pay the dividend to any shareholder by electronic mode, due to nonregistration of the bank account, the Company will dispatch the dividend warrant/demand draft/cheque to such shareholder, in due course.

Members holding shares in the demat mode are requested to update their Bank accounts details with their respective Depository Participants (DPs); and

Members holding shares in the physical form are requested to submit the name and bank account details of the first shareholder along with a cancelled cheque leaf with your name and bank account details and a duly self-attested copy of your PAN card, with the Bigshare Services Private Limited, Registrar and Transfer Agent ('RTA') of the Company. In case the cancelled cheque leaf does not bear your name, please attach a copy of the bank pass-book statement, duly self-attested.

REGISTRATION OF E-MAIL ADDRESSES

Members who have not yet registered their e-mail addresses are requested to register their email addresses. Members holding shares in demat form are requested to update the same with their Depository Participant and to RTA for Members holding shares in physical form.

In case shareholders/ investor have any queries regarding E-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ('FAQs') and i-Vote e-Voting module available at https://ivote.bigshareonline.com, under download section or you can email us to ote@bigshareonline.com or call us at: 1800 22 54 22,

Members are requested to carefully read all the notes set out in the Notice of the 28th AGM and instructions for manner of casting vote through remote e-voting

Company Secretary

Pratik Jain

For Sarthak Metals Limited

Place : Bhilai. Chhattisgarh Date : 21st July, 2023

-: नियम एवं शर्ते :--

- 1. निविदा प्रपन्न हेतु आवेदन के साथ जीवित पंजीयन की प्रति, पेन कार्ड की प्रति, अमानत राशि लिफाफे में अंतिम, मासिक/तिमाही का जी.एस.टी.िरटर्न, वित्तीय वर्ष 2022-23 का ITR (इन्कम टैक्स रिटर्न) की प्रति संलग्न करना होगा। निविदा के साथ संलग्न दस्तावेजों के सही होने एवं किसी भी विभाग में ब्लेक लिस्ट नहीं होने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक कार्य हेतु पृथक-पृथक आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
- निविदा प्रपन्न का मूल्य आयुक्त, नगर निगम, दुर्ग को नगद राशि जमा कर प्राप्त की जा सकती है।
- अमानत राशि का एफ़.डी.आर. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग एवं संबंधित निविदाकार के संयुक्त नाम से देय होगा।
- प्रथम लिफाफा "अ" में अमानत राशि डालना होगा एवं अमानत राशि संबंधी जानकारी लिफाफा में उल्लेख करना होगा। लिफाफी "ब" में निविदा प्रपन्न में निविदा दर प्रस्तुत करना होगा।
- लिफाफा "स" में लिफाफा "अ" और "ब" को रखना होगा, जिसके उपर निविदा कमांक एवं कार्य का विवरण अंकित करना
- 7. अनुमानित निविदा लागत से 10% से कम निविदा दर प्राप्त होने पर नियमानुसार निविदा दर एवं अनुमानित लागत के 90% के अंतर की राशि का एफ0डी0आर0 परफार्मेन्स गारंटी के रूप में आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग के नाम से अनुबंध के पूर्व जमा करना होगा, अन्यथा की स्थिति में अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी।
- 8. **छ**0ग0शासन द्वारा निर्माण कार्य में प्रयुक्त प्रचलित नियमों/अधिनियमों में उल्लेखित प्रावधान का पालन करना अनिवार्य होगा।
- 9. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- 10. निविदा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग के पास सुरक्षित रहेगा।
- 11. निविदा में किसी भी प्रकार के रांशोधन होने पर इसकी सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं की जायेगी। अतः नियमित रूप से वेबसाईट का अवलोकन करें।
- 12. निविदाकारों को निविदा के समय EPF एवं ESIC पंजीयन सहित चालान की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में कार्य का अंतिम भुगतान रोका जावेगा/वसूली की जावेगी।
- 13. सड़क निर्माण कार्यों हेतु 03 वर्ष के लिए 5 प्रतिशत परफार्मेस गारंटी की राशि रोकी जावेगी।
- 14. कार्य के प्रारंभ के पूर्व तथा पृथक-पृथक चरणों में जीओ टेगिंग फोटो लेना तथा फाईल में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

कार्यपालन अभियन्ता, वास्ते/-आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग.